



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1915]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 26, 2019/आषाढ़ 5, 1941

No. 1915]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 2019/ASHADHA 5, 1941

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2019

का.आ. 2127(अ).—यतः दिल्ली मुख्य योजना-2021/ जोन-डी की क्षेत्रीय विकास योजना में इसके तहत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.03.2019 की का.आ.सं. 1281 (अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं; और
- यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना- 2021/जोन-डी की क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना- 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

जोन-डी में आने वाले निम्नलिखित भू-क्षेत्र का भूमि उपयोग नीचे सूचीबद्ध किए गए विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है।

अवस्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	दि.मु.यो.-2021/जोन-डी की क्षेत्रीय विकास योजना (दि.मु.यो. 2001 के अंतर्गत तैयार की गई) के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग जिसमें परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
1	2	3	4	5
योजना जोन-डी में आने वाले पॉकेट-3बी, डी.डी.यू. मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी (राष्ट्रीय स्तर) का प्रस्तावित कार्यालय।	8860	दि.मु.यो. 2021 के अनुसार - 'आवासीय' दि.मु.यो. 2001 के अंतर्गत तैयार की गई जोन-डी की अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार- 'आवासीय' (पुनर्विकास क्षेत्र)।	'सार्वजनिक और अर्ध- सार्वजनिक सुविधाएं'	उत्तर : प्रस्तावित प्राइमरी स्कूल दक्षिण : दीन दयाल उपाध्याय मार्ग (36.58 मीटर मार्गाधिकार) पूर्व : प्रस्तावित 20.0 मीटर मार्गाधिकार सड़क पश्चिम : प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग खाली प्लॉट और मौजूदा 20.0 मीटर सड़क

[फा.सं. के-13011/1/2019-डीडी-1]

अनिल कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2019

S.O. 2127(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan of Zone-D regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1281(E) dated 09.03.2019 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

- Whereas, no objections/ suggestions has been received with regard to the proposed modification; and
- Whereas, the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021 / Zonal Development Plan of Zone-D.
- Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area of land falling in Zone –D is changed as per description listed below:

Location	Area (sqm)	Land use as per MPD-2021/ ZDP of Zone-D (prepared under MPD-2001)	Land use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Proposed office of Bhartiya Janta Party (National level) at Pocket –3B, DDU Marg falling in Planning, Zone-D	8860	As per MPD-2021 - 'Residential'	'Public & Semi-Public Facilities'	North: Proposed Primary Schools South: Deen Dayal Upadhyay Marg (36.58 M ROW) East: Proposed 20.0 M ROW Road West: Proposed Group Housing Vacant Plot & existing 20.0 M Road
		As per approved Zonal Development Plan of Zone-D prepared under MPD-2001- 'Residential (Redevelopment Area)'		

[F.No. K-13011/1/2019-DD-I]

ANIL KUMAR, Under Secy.